



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 07.01.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

आई0जी0आर0एस0 रैंकिंग में पूरे प्रदेश में जनपद खीरी को मिला प्रथम स्थान

जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण व शिकायतकर्ता को समयबद्ध न्याय दिलाने के उद्देश्य से उ0प्र0 शासन द्वारा जनसुनवाई पोर्टल (आई0जी0आर0एस0) संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार के समस्त विभागों से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित को प्रेषित किया जाता है। इस क्रम में पुलिस विभाग से संबंधित प्रार्थना पत्रों को भी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। विगत माह दिसम्बर 2020 में पोर्टल के विभिन्न संदर्भों जैसे मा0 मुख्यमंत्री संदर्भ, भारत सरकार पी0जी0 पोर्टल, ऑनलाइन संदर्भ, शासन/राजस्व सन्दर्भ, मंडल आयुक्त संदर्भ, जिलाधिकारी संदर्भ, पुलिस अधीक्षक संदर्भ आदि में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। जिसमें शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट में पूरे प्रदेश में जनपद खीरी को 100 प्रतिशत निस्तारण के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

थाना खीरी पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया

गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध समाज विरोधी क्रियाकलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना खीरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्तों 1. लाल सिंह पुत्र भजनलाल 2. सर्वेश पुत्र कपूरी लाल नि0गण मोहल्ला अर्साखाना थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 700 रु0 नकद एवं 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 5/21 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना फरधान पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल सहित 01 अभियुक्त को

गिरफ्तार किया गया।



प्रेस नोट थाना फरधान

चोरी के मोटर साइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 07.01.2021 को थाना फरधान पुलिस द्वारा शांतिर वाहन चोर चोरी की मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

अंकित वर्मा पुत्र विरेन्द्र वर्मा नि० नया गांव थाना तालगांव जिला सीतापुर जिला खीरी ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय :

तालपुर बैरियर राइस मिल के पास समय करीब 08.30 बजे ।

बरामदगी:

1. एक अदद मोटरसाइकिल HF डीलक्स न० UP 41 AQ 7715 चोरी की ।

विगत कुछ समय से जनपद लखीमपुर व आस पास के जनपदों में वाहन चोरी आदि की घटनाओं को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे वाहन चोर गिरोह की तलाश, वांछित वारंटी व इनामी अपराधियों की धर पकड़ अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.01.2021 को थाना फरधान पुलिस द्वारा एक चोरी की मोटरसाइकिल HF डीलक्स न० UP 41 AQ 7715 के साथ उपरोक्त अभियुक्त को तालपुर राइस मिल के पास से गिरफ्तार किया गया । पूछताछ में अंकित वर्मा उपरोक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल 3-4 दिन पूर्व जनपद बाराबंकी से अपने रिश्तेदार दीपक पुत्र रामप्रकाश के साथ चोरी की थी । दीपक के कहने पर आज यह मोटरसाइकिल लेकर तालपुर राइस मिल के पास बेचने आया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना फरधान लखीमपुर खीरी मु०अ०सं० 06/2021 धारा 41 द०प्र०सं० 411 भादवि के अभियोग में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम :

1. उ०नि० राजकिशोर यादव
2. का० अंगद
3. का० रामसुख

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 110 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना भीरा	60 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना पसगवां	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना नीमगांव	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना गोला	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	110 लीटर	06 अभियुक्त गिरफ्तार